

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2019/18.—छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है :-

1. अम्बिकापुर नगर पालिक निगम को 48 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	भगवानपुर वार्ड
2	गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	संत मदर टेरेसा वार्ड
5	गोधनपुर वार्ड
6	महाराणा प्रताप वार्ड
7	वीर सांवरकर वार्ड
8	फुन्दुरडिहारी सेन्ट्रल वार्ड
9	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
10	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
11	पटपरिया वार्ड
12	माता राजमोहिनी वार्ड
13	मंगल पाण्डेय वार्ड
14	नमनाकला वार्ड
15	देवीगंज वार्ड

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
16	शहीद चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
17	रैदास वार्ड
18	गुरु घासीदास वार्ड
19	भगवान महावीर वार्ड
20	महात्मा गांधी वार्ड
21	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
22	शहीद वीर नारायण वार्ड
23	लरंग साय वार्ड
24	पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड
25	सत्ती वार्ड
26	गुरुनानक वार्ड
27	शहीद भगत सिंह वार्ड
28	गौरी वार्ड
29	लोकनायक जयप्रकाश वार्ड
30	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
31	शीतला वार्ड
32	रामानुज वार्ड
33	ब्रम्ह वार्ड
34	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
35	गुरुद्वारा वार्ड
36	महामाया वार्ड
37	अग्रसेन वार्ड
38	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
39	रफी अहमद किदवाई वार्ड
40	नवागढ़ वार्ड
41	शहीद अब्दुल हमीद वार्ड
42	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
43	कबीर वार्ड
44	इंदिरा गांधी वार्ड
45	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
46	संत गहिरा गुरु वार्ड
47	गंगापुर वार्ड
48	बिशुनपुर वार्ड

अम्बिकापुर नगर पालिक निगम के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 1 – भगवानपुर वार्ड

- उत्तर : भगवानपुर खुर्द की सीमा से पूर्व महापौर निवास तिराहे तक ।
 पूर्व : पूर्व महापौर तिराहे से प्रदीप साना के घर से जायका के सामने चौक से हॉली क्रास पीछे रास्ते से बीके स्मृति के बगल से हॉली क्रास के बाउंड्री से चाची कॉलोनी तक ।
 दक्षिण : चाची कॉलोनी से रावत रेसीडेंसी मोड मनेन्द्रगढ़ रोड से नगर सीमा तक ।
 पश्चिम : नगर सीमा से प्रारंभ होकर आदिवासी पारा होते हुए भगवानपुर खुर्द सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 2 – गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

- उत्तर : भगवानपुर हाई स्कूल से प्रारम्भ होकर जायका होटल के सामने चौराहे तक ।
 पूर्व : जायका होटल के सामने चौराहे से प्रदीप साना के घर तक ।
 दक्षिण : प्रदीप साना के घर से पूर्व महापौर के निवास तक ।
 पश्चिम : पूर्व महापौर के निवास से प्रारम्भ होकर सामने मोड से होते हुए भगवानपुर खुर्द से सीमा जाने वाले रास्ते से खेत होते हुए हाई स्कूल भगवानपुर तक ।

वार्ड क्रमांक 3 – श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

- उत्तर : बनारस रोड पर मण्डल के मकान से साई बाबा कालेज के सामने से होते हुये डिगमा रोड में सरगवां जाने वाली कच्ची सड़क से होते हुए अटल आवास के सामने स्थित कब्रिस्तान के पूर्वी दक्षिणी कोने तक ।
 पूर्व : अटल आवास के सामने कब्रिस्तान के पूर्वी दक्षिणी कोने से प्रारंभ होकर शिवमंदिर होते हुए मंजूषा भगत घर के सामने वाले रोड से शिव मंदिर तक ।
 दक्षिण : शिव मंदिर से राजू उपाध्याय के घर होते हुए से गांधीनगर शासकीय हाई स्कूल तक ।
 पश्चिम : गांधीनगर शासकीय हाई स्कूल बनारस रोड से काबेरी ढाबा होते हुए मंडल के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 4 – संत मदर टेरेसा वार्ड

- उत्तर : डेयरी फार्म शिव मंदिर से मंजूषा भगत के घर होते हुए मुक्तिधाम अटल आवास शांतिपारा तक ।
 पूर्व : अटल आवास शांतिपारा के सामने पूर्वी कोने से अटल आवास होते हुए अजित केरकेट्टा के घर सामने सिंचाई विभाग कॉलोनी होते हुए अजित केरकेट्टा के घर के सामने पश्चिम तक ।
 दक्षिण : अजित केरकेट्टा के घर के सामने पश्चिम के सामने रास्ते से गोपाल तिवारी के मकान सोहन जायसवाल के घर तक ।
 पश्चिम : सोहन जायसवाल के घर से होते हुए डेयरी फार्म शिव मंदिर तक ।

वार्ड क्रमांक 5 – गोंधनपुर वार्ड

- उत्तर : बसुन्धरा बिहार से उत्तरी-पश्चिमी नाले से प्रारम्भ होकर प्रतापपुर रोड पर श्री नर नारायण सिंह के कृषि भूमि एवं पुलिया होते हुए यु.एस.के. फार्म हाउस होते हुए शंकरघाट में शिव मंदिर तक।
- पूर्व : शिव मंदिर के पास अम्बिकापुर की उत्तरी सीमा के नाले से रामानुजगंज रोड होते हुए संजय पार्क होकर फारेस्ट नर्सरी तक।
- दक्षिण : फारेस्ट नर्सरी के कोने से रिजर्व फारेस्ट सीमा होते हुए धोबी नाला के पास के. आर.कालेज होते हुए सिकटापारा तक।
- पश्चिम: सिकटापारा से कैलाश मिश्रा के घर होते हुए पार्श्व प्रेमानंद तिग्गा के घर के सामने नाले से होकर उदयराज तिवारी के घर होते हुए वर्मा बगीचा होते हुए बसुन्धरा बिहार कॉलोनी नाले तक।

वार्ड क्रमांक 6 – महाराणा प्रताप वार्ड

- उत्तर : शिवधारी तालाब से प्रारंभ होकर छठ तालाब होते हुए के.आर.कालेज के बगल वाले रास्ते से होते हुए धोबी नाला से संजय पार्क के पिछे वाले हिस्से तक।
- पूर्व : संजय पार्क के पिछे वाले हिस्से से खालपारा होते हुए एसएलआरएम सेन्टर होते हुए मेरिन ड्राईव मार्केट के पीछे से नाला पुलिया तक।
- दक्षिण : मेरिन ड्राईव मार्केट पुलिया नाला से प्रारंभ होकर महाराणा प्रताप चौक से रिंग रोड में धर्मेन्द्र झा गली तक।
- पश्चिम: धर्मेन्द्र झा गली से प्रारम्भ होकर शिवधारी तालाब तक।

वार्ड क्रमांक 7 – वीर सांवरकर वार्ड

- उत्तर : बनारस रोड गांधीनगर हाई स्कूल से गांधी चौक होते हुए भूपेन्द्र सिंह वकील के घर सामने से सोहन जायसवाल से अजीत लकडा के घर के सामने तक।
- पूर्व : अजीत लकडा के घर सामने से लकडापारा होते हुए बिरनीबेडा दक्षिण कोना तक।
- दक्षिण : बिरनीबेडा दक्षिण कोना से सीएसईबी रोड होते हुए जायका रेस्टोरेन्ट बनारस रोड के कोना तक।
- पश्चिम: जायका रेस्टोरेन्ट के कोने से सिंचाई विभाग कॉलोनी होते हुए बनारस रोड शासकीय हाई स्कूल के सामने कोने तक।

वार्ड क्रमांक 8 – फुन्दुरडिहारी सेन्ट्रल वार्ड

- उत्तर : शांतिपारा से बसुन्धरा बिहार कॉलोनी के कोने तक।
- पूर्व : बसुन्धरा बिहार के कोने से बसुन्धरा बिहार होते हुए वर्मा बगीचा होते हुए उदयराज तिवारी के सामने से गोंधनपुर तालाब तक।
- दक्षिण : गोंधनपुर तालाब से 23 एकड के पीछे से धोबीपारा के पहले से होते हुए सेन्ट जेवियर के कोने से फुन्दुरडिहारी रोड से फुन्दुरडिहारी चौक तक।
- पश्चिम: फुन्दुरडिहारी चौक से अजित केरकेटटा के घर सिंचाई विभाग ऑफिस होते एम एम पाण्डेय का घर होते हुए सामुदायिक भवन शांतिपारा तक।

वार्ड क्रमांक 9 – महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

- उत्तर : बिरनी बेडा के कोने से ईमली पेड होते हुए सुरेश मुर्गा दुकान के पहले सायकिल से पूर्व महापौर के पुराने घर होते हुए शिव मंदिर के सामने तक।
- पूर्व : शिव मंदिर के सामने से दूरदर्शन के कोने से मनेन्द्रगढ रोड से शनि मंदिर तक।
- दक्षिण : शनि मंदिर से हरकेवल मंदिर के सामने से दत्ता कॉलानी लेते हुए राजमोहनी भवन से मनेन्द्रगढ रोड में हॉलीक्रास कान्वेन्ट स्कूल के पुलिया तक।
- पश्चिम: होलीक्रास कान्वेन्ट स्कूल पुलिया से होलीक्रास कालेज के पिछले गेट से बनारस रोड होते हुए पंचायत भवन जाने वाले रास्ते बिरनीबेडा के कोने तक।

वार्ड क्रमांक 10 – बाल गंगाधर तिलक वार्ड

- उत्तर : फुन्दुरडिहारी चौक से सेन्ट जेवियर धोबीपारा होते हुए, सेन्ट जेवियर 23 एकड के पूर्वी-उत्तरी एरिया तक।
- पूर्व : 23 एकड के पूर्वी-उत्तरी कोने से लोयला हॉस्टल चर्च होते हुए शिव मंदिर के सामने मोड तक।
- दक्षिण : शिव मंदिर के सामने मोड से पूर्व महापौर के पुराने घर से सुरेश मुर्गा दुकान से सायकिल दुकान से इमली पेड तक।
- पश्चिम: इमलीपेड से पंचायत भवन के सामने होते हुए फुन्दुरडिहारी चौक तक।

वार्ड क्रमांक 11 – पटपरिया वार्ड

- उत्तर : माखन बिहार से मनेन्द्रगढ रोड होते हुए स्टेट बैंक सिटी ब्रांच के बगल तक।
- पूर्व : स्टेट बैंक सिटी ब्रांच के बगल से टाईम आउट सिनेमा होते हुए दक्षिण की ओर नाला तालाब तक।
- दक्षिण : नाला तालाब से खेत होते हुए महामाया फलेक्स के सामने तक।
- पश्चिम: महामाया फलेक्स के सामने रोड से होते हुए नगर सीमा से रोड होते हुए माखन बिहार तक।

वार्ड क्रमांक 12 – माता राजमोहिनी देवी वार्ड

- उत्तर : स्टेट बैंक सिटी ब्रांच से राजमोहनी भवन होते हुए बगल से दत्ता कॉलोनी के पीछे से हरकेवल मंदिर से शनि मंदिर से मनेन्द्रगढ रोड के गांधी चौक तक।
- पूर्व : गांधी चौक से प्रारंभ होकर पॉलिटेक्निक कालेज के पूर्वी-दक्षिणी कोने से होते हुए दशरथ सोसायटी होते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी के सामने से होते हुए नाले तक।
- दक्षिण : नाले से प्रारंभ होकर वार्ड क्र. 48 की सीमा तक।
- पश्चिम: वार्ड क्र. 48 की सीमा से प्रारंभ होकर पटपरिया वार्ड की सीमा होते हुए कृष्णा नगर किसान राईस मिल होते हुए स्टेट बैंक सिटी ब्रांच मनेन्द्रगढ रोड तक।

वार्ड क्रमांक 13 – मंगल पाण्डेय वार्ड

- उत्तर : रिंग रोड पर क्रांकीट रोड से प्रारंभ होकर कब्रिस्तान के अहाता होते हुए पत्ता गोदाम के बगल से सहानी वकील के घर तक।
- पूर्व : सहानी वकील के घर से पंचदेव मंदिर होते हुए मौलवीय बांध के पश्चिमी-दक्षिणी कोने से महापौर जी के निर्णाधीन हॉस्पीटल तक।
- दक्षिण : महापौर जी के निर्णाधीन हॉस्पीटल से मिशन अहाता होते हुए रिंग रोड तक।
- पश्चिम: मिशन परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने से प्रारंभ होकर रिंग रोड होते हुए कब्रिस्तान वाली क्रांकीट गली तक।

वार्ड क्रमांक 14 – नमनाकला वार्ड

- उत्तर : दशरथ सोनी के सोसायटी के सामने से प्रारंभ होकर पावर हाउस गली होते हुए पॉलिटेक्निक कालेज के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक।
- पूर्व : पॉलिटेक्निक कालेज के पूर्वी-दक्षिणी कोने से प्रारंभ होकर गंगापुर-बिशुनपुर मार्ग तक।
- दक्षिण : गंगापुर-बिशुनपुर मार्ग से प्रारंभ होकर कन्या परिसर वाले मार्ग में स्टॉप डेम तक।
- पश्चिम: स्टॉप डेम से प्रारंभ होकर नाले से हाउसिंग बोर्ड कालोनी होते हुए दशरथ सोनी के सोसायटी के सामने वाले चौक से पावर हाउस के बगल वाले रास्ते तक।

वार्ड क्रमांक 15 – देवीगंज वार्ड

- उत्तर : आकाशवाणी परिसर के ओम प्रकाश के घर से कोष लेखा के सामने से होते हुए संतोष अनाज भण्डार होते हुए श्रवण सिंह के मकान होते हुए चन्दु मिश्रा के घर होते हुए दुहन के घर तक।
- पूर्व : दुहन के घर जोड़ा पीपल से प्रारंभ होकर देवीगंज रोड़ पर महाराजा होटल तक।
- दक्षिण : देवीगंज रोड़ में महाराजा होटल से प्रारंभ होकर गांधी चौक से मनेन्द्रगढ़ रोड़ में सिविल लाईन रोड़ होते हुए मनेन्द्रगढ़ रोड़ एवं सर्किट हाउस परिसर से होते हुए दुरदर्शन टावर के अहाता कोने तक।
- पश्चिम: दुरदर्शन टावर के कोने से शासकीय बॉउण्ड्रीवाल नवापारा जाने वाली रोड़ ओम प्रकाश अग्रवाल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 16 – शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

- उत्तर : लॉयला हास्टल से प्रारंभ होकर सिकटापारा के पहले हरिहर यादव के मकान के बगल से जायसवाल सिमेंट प्रोडक्ट के बाउंड्री से होते हुए रिंग रोड़ तक।
- पूर्व : जायसवाल सिमेंट प्रोडक्ट के बाउंड्री से होते हुए रिंग रोड़ होते हुए टिम्बर भवन के सामने से इंदिरा बाल उद्यान तक।
- दक्षिण : इंदिरा बाल उद्यान से कोष एवं लेखा पेंशन कार्यालय होते हुए अजय अग्रवाल (गोगी) के कॉम्पलेक्स तक।
- पश्चिम: अजय अग्रवाल के कॉम्पलेक्स से चर्च के सामने होते हुए लॉयला हास्टल तक।

वार्ड क्रमांक 17 – रैदास वार्ड

- उत्तर : मिशन चौक से मिशन हॉस्पिटल मोड़ से सरगुजा पब्लिक स्कूल मिशन आहाता होते हुए कुलदीप के मकान त्रिकोण चौक तक।
- पूर्व : त्रिकोण चौक से हरेन्द्र सिन्हा के मकान के सामने से होकर चक्रधर पाठक के घर के पास से गली तिवारी बिल्डिंग रोड में राजेन्द्र सिंह के मकान तक।
- दक्षिण : राजेन्द्र सिंह के मकान से होते हुए रामपरीक्षण सिंह के घर होते हुए संतोष अनाज भण्डार तक।
- पश्चिम: संतोष अनाज भण्डार से जगन्नाथ मंदीर होते हुए टिम्बर भवन होते हुए मिशन चौक तक।

वार्ड क्रमांक 18 – गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर : जायसवाल सीमेंट फैक्ट्री से धर्मेश झा गली होते हुए रिंग रोड से महाराणा प्रताप चौक तक।
- पूर्व : महाराणा प्रताप चौक से प्रारंभ होकर प्रतापपुर रोड में भगवान कुशवाहा का घर के सामने से नाईट चौक से त्रिकोण चौक तक।
- दक्षिण : त्रिकोण चौक से कुलदीप के घर के सामने से मिशन आहाता होते हुए सरगुजा पब्लिक स्कूल से मिशन हॉस्पिटल चौक तक।
- पश्चिम: मिशन हॉस्पिटल चौक से चित्रा दुकान से रिंग रोड जायसवाल सिमेंट फैक्ट्री तक।

वार्ड क्रमांक 19 – भगवान महावीर वार्ड

- उत्तर : मैरिन ड्राईव बाजार नाला पुलिया से मैरिन ड्राईव बाजार के पीछे नाला होते हुए संजय पार्क के ठीक दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।
- पूर्व : संजय पार्क के दक्षिणी पूर्वी कोने के सामने से रामानुजगंज रोड होते हुए लरंग साय चौक से होम गार्ड के पहले वाली गली से डीसी रोड होते हुए बृजभान सिंह के मकान तक।
- दक्षिण : डी.सी.रोड में बृजभान सिंह के मकान से जनपद रोड होते हुए प्रतापपुर रोड में ब्लाक कार्यालय के बाजू होते हुए प्रदीप आटा चक्की के सामने तक।
- पश्चिम: प्रदीप आटा चक्की के सामने से प्रतापपुर रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक होते हुए मैरिन ड्राईव बाजार नाला तक।

वार्ड क्रमांक 20 – महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर : रामानुजगंज रोड में बाक नाला तथा सोनपुर एवं अम्बिकापुर की सीमा तक।
- पूर्व : बाँक नाला एवं तकिया रोड से प्रारंभ होकर जयराम तिवारी के मकान से केनाबांध के दक्षिणी मेंड से होते हुए सुलभ शौचालय से होते हुए रिंग रोड तक।
- दक्षिण : रिंग रोड से बौरीपारा स्कूल होते हुए लरंग साय चौक तक।
- पश्चिम: लरंग साय चौक से रामानुजगंज रोड होते हुए शिवमंदिर के सामने बाँक नाला तक।

वार्ड क्रमांक 21 – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर : तकिया रोड पर श्री जयराम तिवारी के मकान के सामने जावेद टेलर के मकान से प्रारंभ होकर तकिया रोड पर पुलिया तक।
- पूर्व : तकिया रोड पर पुलिया से प्रारंभ होकर नाला सीमा तक।
- दक्षिण : नाला सीमा से प्रारंभ होकर रिंग रोड महादेव मंदिर से पहले वाली गली तक।
- पश्चिम: महादेव मंदिर के पहले वाली गली से प्रारंभ होकर रिंग रोड होते हुए सुलभ शौचालय से केनाबांध के दक्षिणी कोने से जयराम तिवारी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 22 – शहीद वीर नारायण वार्ड

- उत्तर : महादेव मंदिर पहले वाली गली से होकर नाले से खैरवार सीमा तक।
- पूर्व : खैरवार की सीमा से चांदनी चौक जाने वाले रास्ते में सन राईज स्कूल के पहले गली से होकर कबाड बस्ती से रिंग रोड तक।
- दक्षिण : रिंग रोड से चांदनी चौक से माया साहू के घर तक।
- पश्चिमी : माया साहू के घर से रिंग रोड होते हुए बौरी बांध के सामने से महादेव मंदिर के आगे वाली गली तक।

वार्ड क्रमांक 23 – लरंग साय वार्ड

- उत्तर : खैरवार राजस्व ग्राम की सीमा नहर से घुटरापारा तक।
- पूर्व : घुटरापारा से ओपीएस के सामने रोड होते हुए महामाया मंदिर तक।
- दक्षिण : महामाया मंदिर से बालकृष्ण पाठक के फार्म हाउस होते हुए सद्भावना चौक तक।
- पश्चिम: सद्भावना चौक के जयना तालाब होते हुए चांदनी चौक से पहले टाटा मोटर गैरेज के गली से होते हुए कबाड बस्ती के दाहिने से सन राईज स्कूल के पास रोड से खैरवार राजस्व ग्राम की सीमा तक।

वार्ड क्रमांक 24 – पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर : गांधी चौक के आगे आईटीआई क्वाटर पास से शिशु मंदिर के पीछे कृष्ण कुमार सिंह के मकान से होते हुए खेम बहादुर के मकान तक।
- पूर्व : श्री खेम बहादुर सिंह के मकान से होकर श्री बेचन खटिक के बगल से बिहारी कैटर्स के बगल वाली गली तक।
- दक्षिण : बिहारी कैटर्स के बगल वाली गली से हर्ष किराना से होते हुए बिहारी सोनी के घर के सामने से रामनिवास के घर होते हुए रीता सेन के घर के आगे रोड तक।
- पश्चिम: रीता सेन के घर के आगे रोड से मौलवी बांध के उत्तर पश्चिम कोना होते हुए पंचदेव मंदिर होते हुए सहानी वकील के सामने से कांक्रीट रोड कब्रिस्तान के अहाता होते हुए रिंग रोड होते हुए गांधी चौक से पहले आईटीआई क्वाटर से गांधी चौक तक।

वार्ड क्रमांक 25 – सत्ती वार्ड

- उत्तर : देवीगंज रोड में गांधी चौक से प्रारंभ होकर संगम चौक तक ।
 पूर्व : संगम चौक से प्रारंभ होकर ब्रम्ह रोड में जयबालाजी भवन तक ।
 दक्षिण : ब्रम्ह रोड में जयबालाजी भवन से प्रारंभ होकर श्री राम अस्पताल के सामने होते हुए सत्तीपारा रोड में सत्तीपारा स्कूल तक ।
 पश्चिम: सत्तीपारा स्कूल रोड में सत्तीपारा स्कूल से प्रारंभ होकर तिवारी वकील के से खेम बहादुर के आवास होते हुए श्री के.के.सिंह के घर के सामने से जिला कार्यालय परिसर के गेट से कलाकेन्द्र होते हुए जिला न्यायलय के पीछे आई टी आई कॉलोनी के गली से गांधी चौक तक ।

वार्ड क्रमांक 26 – गुरुनानक वार्ड

- उत्तर : सुपर मार्केट से प्रारम्भ होकर चन्दु मिश्रा के घर के सामने से बाबु सिंह के घर के सामने से राजेन्द्र सिंह के घर के बगल वाली गली से मुखर्जी टेन्ट हाउस से होकर साक्षरता मार्ग में तार बाबू के मकान होते हुए भट्टी रोड होते हुए चर्च के सामने से शिवाजी चौक से गुरुनानक चौक तक ।
 पूर्व : गुरुनानक चौक से प्रारंभ होकर महामाया चौक तक ।
 दक्षिण : महामाया चौक से प्रारंभ होकर मातुराम सेठ के मकान तक ।
 पश्चिम: मातुराम सेठ के मकान से होकर महाराजा होटल गली में जोड़ा पीपल होते हुए सुपर मार्केट तक ।

वार्ड क्रमांक 27 – शहीद भगत सिंह वार्ड

- उत्तर : हरेन्द्र सिन्हा के घर के पहले चौक से त्रिकोण चौक तथा साक्षरता मार्ग में नाईट चौक से भगवान कुशवाहा के घर तक ।
 पूर्व : भगवान कुशवाहा के घर से प्रतापपुर रोड होते हुए गुदरी चौक लालचंद के मकान तक ।
 दक्षिण : लाल चन्द गुप्ता के मकान से प्रारंभ होकर चर्च रोड होते हुए साक्षरता मार्ग में तार बाबू के मकान के बगल से मुखर्जी चौक तक ।
 पश्चिम: मुखर्जी चौक से प्रारंभ होकर तिवारी बिल्डिंग रोड पर सतीश चन्द्र तिवारी के मकान के बगल से होकर कोचेटा के मकान होते हुए हरेन्द्र सिन्हा के घर के पहले चौक तक ।

वार्ड क्रमांक 28 – गौरी वार्ड

- उत्तर : लरंगसाय चौक से प्रारंभ होकर रिंग रोड में संजय मिश्रा के घर तक ।
 पूर्व : संजय मिश्रा के घर से सुभाष कान्वेन्ट स्कूल होते हुए अल्का इंडस्ट्रीज गली तक ।
 दक्षिण : अलका इंडस्ट्रीज से बलराम मामा का घर होते हुए जायसवाल धर्मशाला होते हुए पुलिस लाईन रोड होते हुए गुरुनानक चौक से शिवाजी चौक तक ।
 पश्चिम: शिवाजी चौक से प्रतापपुर रोड में जनपदपारा मोड से बृजभान सिंह मकान के सामने से डी.सी.रोड होते हुए होम गार्ड के बगल से गली होते हुए रामानुजगंज रोड से लरंगसाय चौक तक ।

वार्ड क्रमांक 29 – लोक नायक जयप्रकाश वार्ड

- उत्तर : रामानुजगंज रोड में आर.आई. बंगला से प्रारंभ होकर जायसवाल धर्मशाला होकर श्री के.आर.सिंह के मकान होते हुए कौन्तेय जायसवाल के मकान अल्का इंडस्ट्रीज के पीछे तक।
- पूर्व : अल्का इंडस्ट्रीज के सामने बौरीबांध तालाब से प्रारंभ होकर बौरीबांध तालाब के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक। उत्तर-पूर्वी कोने से होकर कृष्णा स्मृति के घर के दोनों तरफ अजय सिन्हा के मकान के सामने वाले रास्ते से शिवमूनि के घर होते हुए पूर्व पार्श्वद विश्वनाथ दूबे के घर के सामने वाले हिस्से से थाना रोड तक।
- दक्षिण : थाना रोड से प्रारंभ होकर सदर थाना के सामने से होते हुए गुरुनानक चौक तक।
- पश्चिम: गुरुनानक चौक से प्रारंभ होकर रामानुजगंज रोड में आर.आई.क्वार्टर तक।

वार्ड क्रमांक 30 – लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर : अजय सिन्हा के घर के पीछे वाली गली से बौरीबांध पूर्वी-दक्षिणी कोने से रिंग रोड तक।
- पूर्व : बौरी बांध रिंग रोड से प्रारंभ होकर चांदनी चौक तक।
- दक्षिण : चांदनी चौक से होते हुए थाना रोड में पूर्व पार्श्वद विजय सोनी के मकान के पहले गली तक।
- पश्चिम: पूर्व पार्श्वद विजय सोनी के मकान के पहले गली से होते हुए अजय सिन्हा के मकान के सामने गली तक।

वार्ड क्रमांक 31 – शीतला वार्ड

- उत्तर : सत्तीपारा स्कूल रोड में सत्तीपारा स्कूल के बगल से त्रिपाठी क्लिनिक होते हुए ब्रम्ह रोड में गुप्ता के मकान तक।
- पूर्व : ब्रम्ह रोड में श्री गुप्ता के मकान से प्रारंभ होकर चतुर्वेदी अधिवक्ता के मकान से ब्रम्ह रोड में शीतला मंदिर मोड तक।
- दक्षिण : शीतला मंदिर मोड से सत्तीपारा रोड में जोडा तालाब जाने वाले रास्ते से होते हुए शैलेन्द्रनाथ बनर्जी के मकान से होकर मौलवीय बांध मेड होते हुए दक्षिण-पश्चिम सीमा तक।
- पश्चिम: मौलवीय बांध मेड होते हुए दक्षिण-पश्चिम सीमा से कोने से प्रारम्भ होकर पंचदेव मंदिर होते हुए रीता सेन के मकान के सामने से रामनिवास उपाध्याय के घर होते हुए हर्ष किराना होते हुए सत्तीपारा स्कूल तक।

वार्ड क्रमांक 32 – रामानुज वार्ड

- उत्तर : सत्तीपारा रोड में जोडा तालाब की ओर जाने वाली रोड से प्रारम्भ होकर ब्रम्ह रोड में मायालॉज चौक से एकांत होटल होते हुए अग्रसेन चौक तक।
- पूर्व : अग्रसेन चौक से प्रारम्भ होकर रानी तालाब के दक्षिणी पश्चिमी कोना में श्री जी. एस.सिंह के मकान के सामने तक।
- दक्षिण : रानी तालाब के दक्षिणी पश्चिमी कोना में श्री जी.एस.सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पश्चिम बिलासपुर रोड में सिस्टर क्वार्टर पुराना पोस्ट ऑफिस रोड में बिही बाड़ी एवं राज्य परिवहन आवासीय जेल द्वार के बगल की गली से होते हुए जेल बांध के पश्चिमी मेड पर स्थित तालाब पर प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के सामने रिंग रोड तक।
- पश्चिम: प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के सामने रिंग रोड होते हुए गौरवपथ कन्या महाविद्यालय होते हुए मौलवीय बांध के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से दक्षिणी मेड होते हुए जोडा तालाब में शैलेन्द्रनाथ बनर्जी के मकान से चक्रधारी सिंह के मकान होते हुए सत्तीपारा रोड तक।

वार्ड क्रमांक 33 – ब्रम्ह वार्ड

- उत्तर : बालाजी भवन के सामने रोड से स्व. रवि त्रिपाठी का घर होते हुए सेठ बसंत लाल मार्ग होते हुए सेन्ट्रल बैंक रोड में सेठ बसंत लाल के पुराने मकान तक।
- पूर्व : सेठ बसंतलाल (बसंत टायर) के बगल में दक्षिण की ओर जाने वाली गली में फुलवारी के अहाता से राम विलास के मकान को जोड़ते हुए सदर रोड में गिरजा फार्मसी से कनौजिया के मकान होते हुये ट्रान्सफार्मर के बगल वाली गली से दरोगा कुँआ से किरोडीमल के मकान गली से षंकर अग्रवाल होते हुये मुरारी अग्रवाल के सामने रोड से जय स्तंभ चौक में महामाया ट्रेडर्स होते हुये अग्रसेन चौक तक।
- दक्षिण : अग्रसेन चौक से एकान्त होटल के सामने से पुराना बस स्टैण्ड पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक तक।
- पश्चिम: पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक से ब्रम्ह मंदिर होते हुये बालाजी भवन के सामने रोड तक।

वार्ड क्रमांक 34 – स्वामी विवेकानन्द वार्ड

- उत्तर : संगम चौक में गुप्ता काम्पलेक्स से प्रारम्भ होकर देवीगंज रोड होते हुए महामाया चौक तक।
- पूर्व : महामाया चौक से कादम्बी चौक से जय स्तंभ चौक के पहले आजाद बैण्ड पार्टी वाली गली तक।
- दक्षिण : आजाद बैण्ड पार्टी वाली गली से राम विलास के मकान होते हुए नाला होते हुए बसंत टायर के सामने तक। बसंत टायर के सामने से सेठ बसंतलाल मार्ग होते हुए स्व रवि त्रिपाठी के घर के सामने से बालाजी भवन के सामने ब्रम्ह रोड तक।
- पश्चिम: बालाजी भवन के सामने ब्रम्ह रोड से संगम चौक तक।

वार्ड क्रमांक 35 – गुरुद्वारा वार्ड

- उत्तर : गुरुनानक चौक से प्रारंभ होकर शासकीय आवास होकर थाना रोड होते हुए पूर्व पार्श्वद विश्वनाथ दुबे गली से होते हुए नाला से मंदिर होते हुये गिरधारी किराना स्टोर होते हुए ट्रान्सफार्मर के पास मेन रोड मायापुर से चांदनी चौक तक।
- पूर्व : चांदनी चौक से पंचदेव मंदिर होते हुए अभिनव टॉकीज एवं महामाया रोड में स्व. विजय नारायण के मकान तक।
- दक्षिण : महामाया रोड में स्व. विजय नारायण सिंह के मकान होते हुए महामाया चौक तक।
- पश्चिम: महामाया चौक से प्रारंभ होकर गुरुनानक चौक तक।

वार्ड क्रमांक 36 – महामाया वार्ड

- उत्तर : चांदनी चौक से प्रारंभ होकर रिंग रोड पेट्रोल पम्प तक।
- पूर्व : रिंग रोड पेट्रोल पम्प से सद्भावना चौक होते हुए वारसी साहब के घर की बगल गली तक।
- दक्षिण : वारसी साहब के घर के बगल गली से इम्ब्राहीम ड्राईवर के घर से होते हुए महामाया रोड में टावर गली से महामाया रोड होते हुए सतीश जैन के घर तक।
- पश्चिम: सतीश चन्द जैन के मकान से चांदनी चौक की ओर जाने वाली सड़क में पंचदेव मंदिर के सामने होते हुए चांदनी चौक तक।

वार्ड क्रमांक 37 – अग्रसेन वार्ड

- उत्तर : सदर रोड में कादम्बी चौक से मनाजुल खान के घर होते हुए सत्यवान गोयल के लकड़ी मिल होकर बंडाबहरा के दिवाल के रास्ते से अयान मार्ग सानुल सिफाई के घर से अयान मार्ग में प्रकाश रवानी कॉलोनी वाले रास्ते से रिंग रोड तक।
- पूर्व : प्रकाश रवानी कॉलोनी रिंग रोड जाने वाले रास्ते से रिंग रोड होते हुए भारत माता चौक से खरसिया रोड पेट्रोल पम्प तक।
- दक्षिण : पेट्रोल पम्प से जी.एस.सिंह के मकान से प्रारंभ होकर अलखनन्दा टाकीज के सामने होते हुए अग्रसेन चौक तक।
- पश्चिम: अग्रसेन चौक से महामाया ट्रेडर्स की बगल गली से मुरारीलाल बसंल के घर होते हुये दरोगा कुआँ से ट्रान्सफार्मर के सामने से सदर रोड में अजय किताब घर से सदर रोड में कदम्बी चौक तक।

वार्ड क्रमांक 38 – डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

- उत्तर : महामाया चौक से महामाया रोड होते हुए स्व. शफाकत अली के घर के पीछे नाला तक।
- पूर्व : स्व. शफाकत अली के घर के पीछे नाला से प्रारंभ होकर समीद बाबु के सामने गली से रसूलपुर खादिम का मकान के पीछे बर्फ फैंक्ट्री गली होते हुए अयान मार्ग में बण्डा बहरा के अहाता मार्ग तक।
- दक्षिण : अयान मार्ग में बण्डा बहरा के अहाता मार्ग से अयान मार्ग रोड बरेज तालाब होते हुए शीतल छाया दक्षिणी मेंड होकर गोयल लकड़ी मिल के सामने से नेशनल टायर गली होते हुए कादम्बी चौक सदर रोड तक।
- पश्चिम: सदर रोड कादम्बी चौक से प्रारंभ होकर महामाया चौक तक।

वार्ड क्रमांक 39 – रफी अहमद किदवई वार्ड

- उत्तर : महामाया रोड में समलाया मंदिर के कोने से प्रारंभ होकर महामाया रोड में टावर गली तक।
- पूर्व : महामाया रोड में टावर गली से किटटु भाई के घर के सामने रोड से शाहजहां खान के मकान के कोने तक।
- दक्षिण : शहाजहाँ खान के मकान से इलियास अंसारी के मकान से सानुल सिफाई के मकान के पास कलामुददीन खेत तक।
- पश्चिम: कमालुद्दीन के खेत से होकर खादिम झाईवर का मकान समीद बाबु के मकान होते हुए स्व. शफाकत अली के मकान से समलाया मंदिर कोने तक।

वार्ड क्रमांक 40 – नवागढ़ वार्ड

- उत्तर : वारसी साहब के मकान से रिंग रोड में सदभावना चौक से महामाया मंदिर के सामने से ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल तक।
- पूर्व : ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल से खैरबार सीमा से प्रारंभ होकर नगर सीमा होते हुए ऑक्सीजन पार्क के नीचे स्व. जाफर खान के घर के सामने वाले चौक से होते हुए नहर मार्ग तक।
- दक्षिण : नहर मार्ग से प्रारंभ होकर पुलिया से होकर फारुख कबाडी के घर के सामने से होते हुए हरसागर तालाब रिंग रोड में राज किराना के बगल तक।
- पश्चिम: राज किराना के बगल से शाहजहां खान के मकान के पहले से हरसागर तालाब के पश्चिमी-उत्तरी कोने से वारसी साहब के घर रिंग रोड तक।

वार्ड क्रमांक 41 – शहीद अब्दुल हमीद वार्ड

- उत्तर : राज किराना रिंग रोड से प्रारंभ होकर फारुख कबाडी का घर होते हुए नहर से पूर्व संरपंच का घर होते हुए स्व. जाफर खान के घर के सामने वाले चौक से श्रीगढ सीमा होते हुए पंचायत भवन तक।
- पूर्व : पंचायत भवन से प्रारंभ होकर श्रीगढ की सीमा होते हुए खरसिया रोड तक।
- दक्षिण : खरसिया रोड से प्रारंभ होकर भारत माता चौक तक।
- पश्चिम: भारत माता चौक रिंग रोड होते हुए प्रकाश रवानी कॉलोनी से अयान मार्ग होते हुए हकीक चाचा के मकान से होते हुए इश्हाक के मकान होते हुए मुस्लिम झाईवर के घर होते हुए रेयाजुल के मकान होते हुए रिंग रोड में राज किराना तक।

वार्ड क्रमांक 42 – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

- उत्तर : रिंग रोड गौरवपथ से प्रारंभ होकर जेल के पहले से जेल तालाब के पश्चिम कोने तक।
- पूर्व : जेल तालाब के पश्चिम कोने से प्रारंभ होकर बल्लू शर्मा के घर के पास से सुदामा कुर्रे के सीसी रोड वाले रोड से होकर रिंग रोड तक।
- दक्षिण : रिंग रोड से प्रारंभ होकर बन्टी शर्मा के घर के आगे रिंग रोड मोड़ तक।
- पश्चिम: बन्टी शर्मा के घर के आगे रिंग रोड मोड़ से प्रारंभ होकर रिंग रोड गौरवपथ तक।

वार्ड क्रमांक 43 – कबीर वार्ड

- उत्तर : सेंट्रल जेल के पास से जी.एस.सिंह के घर के सामने रोड तक।
- पूर्व : जी.एस. सिंह के घर के सामने रोड से प्रकाश साहू के घर से सामने गली तक।
- दक्षिण : प्रकाश साहू के घर के सामने गली से एस.एल.आर.एम. सेंटर होते हुये रिंग रोड तक।
- पश्चिम: रिंग रोड से सुदामा कुर्रे गली होते हुये जेल बांध से सेंट्रल जेल तक।

वार्ड क्रमांक 44 – इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर : रिंग रोड में गंगापुर नाला गौरवपथ के सामने से प्रारंभ होकर खेत होते हुये एस.एल.आर.एम. सेंटर होते हुये प्रकाश साहू के घर के सामने गली से प्रकाश साहू के घर से सामने गली से हनुमान मंदिर होते हुये श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से गहिरा गुरु आश्रम तक।
- पूर्व : गहिरा गुरु आश्रम से अच्छेलाल साहू का मकान के सामने से होते हुये बिलासपुर रोड तक।
- दक्षिण : बिलासपुर रोड से कांजी घर होते हुये गंगापुर नाले तक।
- पश्चिम: गंगापुर नाले से प्रारंभ होकर गौरवपथ रिंग रोड नाले तक।

वार्ड क्रमांक 45 – डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर : रानी तालाब का दक्षिणी पीड़ श्री जी.एस.सिंह के घर से प्रारंभ होकर रानी तालाब के दक्षिण मेड़ से खेत होकर खरसिया रोड में पेट्रोल पम्प होते हुये खरसिया चौक होकर नगर की सीमा तक।
- पूर्व : नगर सीमा से प्रारंभ होकर गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड तक।
- दक्षिण : गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड से बिलासपुर चौक तक।
- पश्चिम: बिलासपुर चौक से प्रारंभ होकर जिला चिकित्सालय के सामने से जी.एस.सिंह के मकान से रानी तालाब तक।

वार्ड क्रमांक 46 – संत गहिरा गुरु वार्ड

- उत्तर : गंगापुर नाले से प्रारंभ होकर कांजी घर होते हुये बिलासपुर रोड में महेन्द्र साहु के दुकान से प्रारंभ होकर अच्छेलाल साहु का मकान होते हुए भाथुपारा स्कूल नहर तक।
- पूर्व : भाथुपारा स्कूल नहर से प्रारंभ होकर ग्राम कण्ठी की सीमा तक।
- दक्षिण : ग्राम कण्ठी की सीमा से प्रारंभ होकर बिलासपुर रोड नगर सीमा तक।
- पश्चिम: बिलासपुर रोड नगर सीमा से प्रारंभ होकर सेनेटरी पार्क से होते हुए गंगापुर नाले तक।

वार्ड क्रमांक 47 – गंगापुर वार्ड

- उत्तर : हाउसिंग बोर्ड कालोनी गंगापुर वाले रास्ते से प्रारंभ होकर रिंग रोड तक।
- पूर्व : रिंग रोड से प्रारंभ होकर प्रतिक्षा बस स्टैण्ड के सामने होते हुए मुक्तिधाम नाला के आगे पंडितजी के घर तक।
- दक्षिण : मुक्तिधाम नाला के आगे पंडितजी के घर से प्रारंभ होकर ग्राम हर्राटिकरा की सीमा तक।
- पश्चिम: ग्राम हर्राटिकरा की सीमा से प्रारंभ होकर नाला होते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी गंगापुर तक।

वार्ड क्रमांक 48 – बिशुनपुर वार्ड

- उत्तर : महामाया फ्लैक्स के सामने से खेत नाला होते हुये तालाब तक।
- पूर्व : तालाब से प्रारंभ होकर हाऊसिंग बोर्ड नाला तक।
- दक्षिण : हाऊसिंग बोर्ड नाला से प्रारंभ होकर आयुर्वेद हास्पिटल के पीछे से होते हुये ग्राम केशवपुर की सीमा तक।
- पश्चिम: ग्राम केशवपुर की सीमा से प्रारंभ होकर नगर सीमा होते हुये महामाया फ्लैक्स तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक: एफ 1-5/2019/18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

Notification

No. F 1-5/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 10 of the chhattisgarh municipal corporation act 1956 (No.23 of 1956) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Nigam Ambikapur, Distt. Surguja as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Nigam Ambikapur into 48 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

-::SCHEDULE::-

S.No.of ward	Name of the ward
1	BHAGWANPUR WARD
2	GURUDEV RAVINDRA NATH TAGORE WARD
3	SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD
4	SAINT MOTHER TERESA WARD
5	GODHANPUR WARD
6	MAHARANA PRATAP WARD
7	VEER SAVARKAR WARD
8	FUNDURDIHARI CENTRAL WARD
9	MAHARANI LAXMI BAI WARD
10	BAL GANGADHAR TILAK WARD
11	PATPARIYA WARD
12	MATA RAJMOHINI DEVI WARD
13	MANGAL PANDEY WARD
14	NAMNAKALA WARD
15	DEVIGANJ WARD
16	SHAHEED CHANDRASEKHAR AAJAD WARD
17	RAIDAS WARD
18	GURU GHASI DAS WARD
19	BHAGWAN MAHAVEER WARD
20	MAHATMA GANDHI WARD

S.No.of ward	Name of the ward
21	NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE WARD
22	SHAHEED VEER NARAYAN WARD
23	LARANG SAI WARD
24	PANDIT JAWAHARLAL NEHRU WARD
25	SATTI WARD
26	GURUNANAK WARD
27	SHAHEED BHAGAT SINGH WARD
28	GOURI WARD
29	LOK NAYAK JAYPRAKASH WARD
30	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
31	SHITLA WARD
32	RAMANUJ WARD
33	BRAMH WARD
34	SWAMI VIVEKANAND WARD
35	GURUDWARA WARD
36	MAHAMAYA WARD
37	AGRASEN WARD
38	DR. ZAKIR HUSAIN WARD
39	RAFI AHMED KIDWAI WARD
40	NAWAGARH WARD
41	SHAHEED ABDUL HAMID WARD
42	DR. RAJENDRA PRASAD WARD
43	KABIR WARD
44	INDIRA GANDHI WARD
45	DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD
46	SAINT GAHIRA GURU WARD
47	GANGAPUR WARD
48	BISHUNPUR WARD

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Nigam Ambikapur**WARD NO. 01 - BHAGWANPUR WARD**

North	Starting from Bhagwanpur Khurd broder of up to Old Mayor Residence corner.
East	Old Mayor residence corner to Pradeep sana house to infront of Jayaka back side of Holy cross side B.K.Smrati to boundry of Holy Cross Chachi colony.
South	Chachi colony to Rawat Residency to Manendragadh road boundry of Nagar Nigam
West	Boundry of Nagar Nigam to Adiwasi para to boundry of Bhagwanpur khurd.

WARD NO. 02 - GURUDEV RAVINDRA NATH TAGORE WARD

North	Starting from Bhagwanpur High school up to in front of Jayaka hotle Triangle.
East	Starting from Jayaka Hotel Triangle to Pradeep sana house.
South	Starting from Pradeep Sana house to Old Mayor house.
West	Starting from Old Mayor house to turn to border of Bhagwanpur Khurd border up to Bhagwanpur High school.

WARD NO. 03 - SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD

North	Starting from Banaras Road Mandal house to Sai Baba college to Digma road way of Sargoan road upto in front of Atal Awas Kabristan south-east corner.
East	Starting from in front of Atal Awas Kabristan south - east corner to Shiv Temple to in front of Manjusha Bhagat residence road up to Shiv Temple.
South	Starting from Shiv Temple to house of Raju Upadhyay to Govt. H.S.School Gandhinagar.
West	Starting from Govt. H.S.School Gandhinagar. To Banaras Road Kaveri Dhaba up to Mandal house.

WARD NO. 04 - SAINT MOTHER TERESA WARD

North	Starting from Dairy Form Shiv temple to Manjusha bhagat house to Muktidham to Atal awas Shanti para.
East	Starting form Muktidham to Atal awas Shanti para to East corner to Atal Awas to Ajit keketta to Arrigation colony to Ajit kerketta house west corner.
South	Starting from Arrigation colony to Ajit kerketta house corner. To house of Gopal colony to house of Sohan Jaiswal.
West	Starting form house of Sohan Jaiswal to dairy from Shiv temple.

WARD NO. 05 - GODHANPUR WARD

North	Starting from Vasundhara Vihar North west nala to Pratappur road N.N. singh fram house breeze to U.S. Singh farm house up to Sankar Ghat Shiv Temple.
East	Starting from Shiv Mandir Temple border of north Ambikapur nallah to Ramanujganj road to Sanjay park up to Forest nursery.
South	Starting from Forest nursery corner border of reserve forest to Dhobi nallah to K.R. College to Siktapara.
West	Starting from Siktapara to Kailash Mishra house in front of Premanand tigga house to Udayraj Tiwari house to Verma Bagicha to Vasundhara vihar colony nala.

WARD NO. 06 - MAHARANA PRATAP WARD

North	Starting from Shivdhari Talab to Chat talab to side of K.R. college road to Dhobi Nallah up to Back portion of Sanjay park.
East	Starting from Back portion of Sanjay park to Khalpara to SLRM center in behind of Marine Drive market nala breeze.
South	Starting from Marine Drive market nala breeze to Maharana Pratap chowk up to gali to Dharmendra Jha.
West	Starting from Dharmendra Jha gali to Shivdhari talab.

WARD NO. 07 - VEER SAVARKAR WARD

North	Starting from Banaras road G.H.S. School to front of Bhupendra Singh Adovocate to Sohan Jaiswal to front of Ajit Lakra house..
East	Starting from Ajit Lakra house to lakrapara to Bernibeda south corner.
South	Starting form Bernibeda south corner to CSEB road to Banaras road Jayaka restorent corner.
West	Starting from Banaras road Jayaka restorent corner to errigation colony to G.H.S. School corner.

WARD NO. 08 - FUNDURDIHARI CENTRAL WARD

North	Starting from Shanti para to Vasundhara vihar colony corner.
East	Starting from Vasundhara vihar colony corner to Verma bagicha to front of Udayraj Tiwari house to Godhanpur Talab.
South	Starting from Godhanpur Talab to behind of 23 Ekad to front of Dhobi para to corner of Sent Javiors to Fundurduhari road to fudurdihari chauk.
West	Starting from fudurdihari chauk to house of Ajit Kerketta to errigation office to M.M.Pandey house to Samudayik Bhavan to Shantipara.

WARD NO. 09 - MAHARANI LAXMI BAI WARD

North	Starting from Berni beda Corner to Imly ped to front of Suresh chicken shop to old Mayor house to front of Shiv mandir temple.
East	Starting from Front of Shiv mandir temple to Durdarshan Corner to Manedragadh road to Shani mandir temple.
South	Starting from Shani mandir temple to front of Harikeval mandir to data colony to Rajmohini Bhavan to Manendragarh road Holy cross convent school breeze.
West	Starting from Holy cross convent school breeze. behind of Holy cross college gate to Banaras Road to Panchayat Bavan to berni beda corner.

WARD NO. 10 - BAL GANGADHAR TILAK WARD

North	Starting from Fudurdihari chauk to Saint Xavier's to East-North corner 23 Ekad
East	Starting from East-North corner 23 Ekad to Loyala hostile charch to Shiv Temple corner.
South	Starting from Shiv Temple corner to Old Mayor old house to Suresh chicken corner to Bicycle shop to Imlee ped.
West	Starting from Imlee ped to front of Pachayat bhavan to Fundurdihari chauk.

WARD NO. 11 - PATPARIYA WARD

North	Starting from Makhan vihar Manendragarh road to corner of State bank city branch.
East	Starting from State bank city branch corner to Time out cinema hall to south nala talab.
South	Starting from nala talab to Agriculuture land to front of Mahamaya flaxe.
West	Starting from front of Mahamaya flaxe road to Nigam boundry to Makhan vihar

WARD NO. 12 - MATA RAJMOHINI DEVI WARD

North	Starting from State bank City branch to corner of Rajmohini Bhawan up to behind Datta colony to Harkeval Temple to Shani Temple to Manedragadh road Gandhi chowk.
East	Starting form Gandhi chowk to south - east corner polytechnic college to Dashrath soni society up to in front of housing board colony nallah.
South	Starting from Housing board colony nallah up to limit of Ward no. 48.
West	Starting form Limit of ward no. 48 up to border of Patpariya ward to Krishan nagar Kisan rice mil to State bank city branch Manendragarh road.

WARD NO. 13 - MANGAL PANDEY WARD

North	Starting from Ring road concrete road to Kabristan boundary to Patta godwon up to Sahini Advocate house.
East	Starting from Sahini Advocate house to exit to Nallah west of moulvi Bandh to Mayor Hospital.
South	Starting form Mayor Hospital to Mission Boundary up to Ring road.
West	Starting from south west corner mission campus to along ring road up to CC Road Kabristan Gali.

WARD NO. 14 - NAMNAKALA WARD

North	Starting from in front of Dashrath soni society to power house gali up to Poly. college south - east corner.
East	Starting from Poly. college south - east corner up to Gangapur - Vishunpur Road.
South	Starting from Gangapur - Vishunpur road to Kannya Parisar road up to stop dam.
West	Starting form Stop dam Nallah to housing board colony in front of Dashrat soni society up to power house side road.

WARD NO. 15 - DEVIGANJ WARD

North	Starting form Akashawani parisar to Om Prakash house front Kosh lekha to Santosh anaj Bhandar to house of Shravan singh to House of Chandu mishra up to dhohan house
East	Starting from Dhohan house Joda pipal up to Maharaja hotel on Deviganj road
South	Starting from Maharaja hotel on deviganj road to along Gandhi chowk Manendragarh road in front circuit house up to Doordarsan tower boundary.
West	Starting from Doordarsan tower boundary up to Nawapara road Om Prakash Agrawal house.

WARD NO. 16 - SHAHEED CHANDRASEKHAR AAJAD WARD

North	Starting from Loyola hostel before Siktapara beside Harihar house boundry of Jaiswal cement Factory up to Ring road.
East	Starting from Jaiswal cement Factor to Ring road to front of Timber Bhavan up to Indra Garden.
South	Starting from Indria Garden to Kosh lekha office up to complex of Ajay Agrawal (Gogi)
West	Starting from complex of Ajay Agrawal at Nawapara up to Loyola hostel.

WARD NO. 17- RAIDAS WARD

North	Starting from Mission Chauk to Mission Hospital to Surguja Public school up to Kuldeep house.
East	Starting from behind Mission Hospital Kuldeep singh house to Harendra sinha house to chakradhar Pathak street up to way of Tiwari building road up to house of Rajendra singh.
South	Starting from Rajendra singh house to Ramparikshan singh house up to Santosh Anaj Bhandar.
West	Starting from Santosh Anaj Bhandar to Jagnadh Temple to Timber Bavan up to mission chauk.

WARD NO. 18 - GURU GHASIDAS WARD

North	Starting from Jaiswal cement factory to Dharmendra jha gali up to Maharana Pratap chowk.
East	Starting from Maharana Pratap chowk to Pratappur road in front of Bhagwan Kuswaha house corner to night chowk up to Trikone chowk.
South	Starting from Trikon chowk up to front of Kuldeep house Mission boundry Surguja public school up to Mission hospital chowk.
West	Starting from Mission hospital chowk to Chittro dukan up to Ring road Jaiswal cement factory.

WARD NO. 19 - BHAGWAN MAHAVEER WARD

North	Starting from Marine drive market nala breeze to behind marine drive market nala up to Sanjay Park south-east corner.
East	Starting from Sanjay Park south - east corner to Ramanujganj road to Larangsai chowk to front of home guard gali DC Road up to Breejbhan singh house.
South	DC Road Breejbhan house to Janpad road to Pratappur road in front of Pradeep Aata chakki.
West	Stating from front of Pradeep Aata chakki to Pratappur road to Maharana Pratap chowk up to Marine Drive market nala

WARD NO. 20 - MAHATMA GANDHI WARD

North	Starting from On Ramanujganj road from Banki Nallah and Sonpur to Ambikapur border.
East	Starting from Banki Nallah to Takiya road to Jairam Tiwari house to south corner of Kenabandh to Shulabh Shauchalya up to Ring road.
South	Starting from Ring road to Bauripara school up to Larang Sai chowk.
West	Starting from Larang sai chowk to Ramanujganj road in front of Shiv Mandir up to Bak Nallah.

WARD NO. 21 - NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE WARD

North	Starting from On Takiya road from front of Jairam Tiwari house Javed tailor house up to slab culvert on Takiya road.
East	On Takiya Road slab culvert to South side of up to boundary of nala.
South	Starting from nala to before of ring road Mahadeo temple gali.
West	Starting from Mahadeo temple gali to ring road to Shulabh Shauchalay to kenabandh South corner to Jairam Tiwari house.

WARD NO. 22 - SHAHEED VEER NARAYAN WARD

North	Starting from in Mahadev mandir Behind gali up to border of Khairbar Nala.
East	Starting from border of Khairbar Nala to way of Chandani chowk behind of Sunrise school gali to Kabad basti up to Ring road .
South	Starting from Ring road Chandani chowk up to Maya Sahu house.
West	Starting from Maya Sahu house to ring road fornt of Bauriband front of Mahadeo mandir gali.

WARD NO. 23 - LARANG SAI WARD

North	Starting from Border of Khairbar Rajswa village to cainal up to Ghutrapara.
East	Starting from Ghutrapara.front of OPS School up to Mahamaya Mandir.
South	Starting from Mahamaya Mandir.to Balkrishna Pathak form house up to Sadbhawana chowk.
West	Starting from Sadbhawana chowk Jena Talab Before of chandani chowk to Tata motor garej gali Kabad basti right side to Sunrise school road up to Khairbar Revenue village.

WARD NO. 24 - PANDIT JAWAHARLAL NEHRU WARD

North	Starting from Gandhi chowk ITI coter to behind Shisu Mandir to Krishna kumar singh house up to Khem Bahadur house.
East	Starting from Khem Bahadur house to along beside Bechan Khatik to side of Bihari catres gali.
South	Starting form side of Bihari catres gali to Harsh kirana to front of Bihari soni house to Ramnivas house up to the house of Rita sen road.
West	Starting form Rita Sen house raod to North - west corner of Moulvi Bandh to Panchdev Mandir road to in front of Sahini Advocate concrete road to Kabristan boundary to Ring road behind to Gandhi chowk ITI coter.

WARD NO. 25 - SATTI WARD

North	Starting from On Deviganj road Gandhi chauk up to Sangam chowk.
East	At Sangam chowk from Bramh road up to Jaibalaji bhawan
South	On Jaibalaji bhawan to in front of Shri Ram Hospital up to Sattipara school on Sattipara road.
West	Starting from Sattipara school to along with Tiwari Advocate house and Khem Bahadur house to front of Shri K.K. singh house Distt. office campus gate to Kalakendra behind civil court front fo ITI colony Gandhi chowk.

WARD NO. 26 - GURUNANAK WARD

North	Starting from Super Market front of Chandu Mishra house front of Babu singh house to Rajendra singh gali house to Mukharji tent house to along with Tarbabu house at Saksharata marg up to along with old Bhatti road front of Church up to Gurunanak chowk.
East	Starting from Gurunanak chowk up to Mahamaya chowk.
South	Starting from Mahamaya chowk up to house of Matu Ram seth.
West	Starting from house of Matu Ram seth to Via Jodapipal on Maharaja hotel Gali up to Super Market.

WARD NO. 27 - SHAHEED BHAGAT SINGH WARD

North	Starting from before of Harendra sinha house chowk to Trikon chowk at Saksharata marg to Night Chowk up to Bhagwan Kushwaha house.
East	Starting from Bhagwan Kushwaha house to Pratappur road at Gudari chowk up to Lalchand house.
South	Starting from Lalchand house to along church road beside Tar babu house up to Mukharji chowk at Saksharata marg.
West	Starting from Mukhaji chowk beside Satish chand Tiwari house on Tiwari building road up to Kocheta house up to Behind Harendra Sinha house chowk.

WARD NO. 28 - GOURI WARD

North	Starting from Larang sai chowk to Ring road up to house of Sanjay Mishra.
East	Starting from Sanjay Mishra house to Subhash convent school up to Alka Industrise gali.
South	Starting from Alka Industrise gali to. Balram mama house to Jaiswal Dharmshala to police line road to Gurunanak chowk to up Shivaji chowk
West	Starting from Shivaji chowk to Pratappur road Janpad Para corner to in front of Breejbhan singh house to DC Road Home guard side gali to Ramanujganj road up to Larang sai chowk.

WARD NO. 29 - LOK NAYAK JAYPRAKASH WARD

North	Starting from Ramanujganj road R.I. Banglow to along with Jaiswal Dharmsala and K.R. singh house up to Kountey Jaiswal house behind Alka industries.
East	Starting from front of Alka industries Bouribandh talab to along with North-East corner of Bouribandh talab to house of Krishna Smirit to front of Ajay Sinha house to Shiv Muni house to Vishwanath Dubey up to Thana road.
South	Starting from Thana road up to Gurunanak chowk.
West	Starting from Gurunanak chowk to Ramanujganj road up to R.I. Quarter.

WARD NO. 30 - LAL BAHADUR SHASTRI WARD

North	Starting from Ajay Sinha house behind gali to south - east corner of Bouribandh up to Ring road.
East	Starting from Bouribandh road Ring road up to Chandani chowk.
South	Starting from Chandani chowk to Thana road to side of east Ex ward Member Vijay soni house Gali.
West	Starting from side of Ex ward Member Vijay soni house gali to front of Ajay sinha house Gali.

WARD NO. 31 - SHITLA WARD

North	Starting from beside Sattipara school with Tripathi clinic up to Gupta house on Bramh road.
East	Starting from Shri Gupta house on Bramh road up to house of Chaturvedi Advocate house on Bramh road till Shitla mandir road
South	Starting from Shitla mata Mandir road to road of Joda Talab till house of Sailendra Nath Benarjee towestern embankment of Moulvi Bandh.
West	Starting from South - east corner of Moulvi Bandh and western embankment of Moulvi Bandh to Panchdev Mandir to house of Rita sen to Ramniwas Upaddhay house to Harsh Kirana upto Sattipara School.

WARD NO. 32 - RAMANUJ WARD

North	Starting from Joda Talab Bifurcation of Sattipara road through Bramh road to east from Mala lodge chowk in front of M.P.S.R.T.C. Department and Alaknanda Talkies Agrasen chowk.
East	Starting from Agrasen chowk to Rani Talab south - west corner up to G.S. singh house.
South	Starting from south - west corner up to G.S. singh house to Bilaspur road to Post office road Gehun Badi to in front of M.P.S.R.T.C. Residential campus to Jail gate to Jail Bandh west corner to in front of Pratiksha Bus stand up to Ring road.
West	Starting from Pratiksha Bus stand Ring road to Kannya Mahavidyalya road to Gourath path to south-west corner Moulvi Bandh to Joda Talab Sailendra Nath Benerji house to Chakardhari singh house upto Sattipara road.

WARD NO. 33 - BRAMH WARD

North	Starting from Front road of Balaji Bhawan to Lt. Ravishankar Tripathi House to Basant lal marg to Central bank road up to old house of Seth Basant lal.
East	Beside of Seth Basant lal (Basant Tyre) to south side street to along campus of fulwari and Rambilas house to Sadar Road Girja Pharmacy to Kannoja house to transformer gali to Daroga Kua to Kirodimal house gali to Shankar Agrawal till front of Murarilal Agrawal road to Jaistambh Chowk Mahamaya Traders up to Agresan chowk.
South	Starting from Agresan chowk in front of Ekant hotel to Old bus stand up to Pandit Dindyal Uppadhya chowk.
West	Starting from Pandit Dindyal Uppadhya chowk to Bramh road Bramh mandir upto in front of Balaji Bhawan road.

WARD NO. 34 - SWAMI VIVEKANAND WARD

North	Starting from Sangam chowk Gupta complex along with Deviganj road up to Mahamaya chowk
East	Starting from Mahamaya chowk to Kadambi chowk to before Jaistambh Chowk till Ajad band party gali.
South	Starting from Ajad Band party gali to Rambilas house to Nallah up to front of Basant tyre to along with Seth Basant lal marg t Lt. Ravi Tripathi house to front of Balaji Bhawan on Bramh road.
West	Starting from Balaji Bhawan bramha road to Sangam chowk Gupta complex.

WARD NO. 35 - GURUDWARA WARD

North	Starting from Gurunanak chowk to Govt. quarter to Thana road to ex ward member Vishwanath dubey Gali to Nallah to Girdhari General store to Transformer of main road Mayapur upto Chandani Chowk
East	Starting from Chandani Chowk to Panchdev Mandir to Abhinav Talkies road (Mahamaya road) up to Late Vijay Narayan singh house.
South	Starting from Late Vijay Narayan singh house up to Mahamaya chowk.
West	Starting from Mahamaya chowk up to Gurunanak chowk.

WARD NO. 36 - MAHAMAYA WARD

North	Starting from Chandani Chowk to Ring road petrol pump.
East	Starting from Ring road petrol pump to sadbhawana chowk upto Warsi Sahab gali.
South	Starting from Warsi Sahab gali to Ibrahim driver house to Mahamaya road Tower up to Satish Jain Residence.
West	Starting from Satish Chand Jain Residence to Chandani chowk road front of Punchdev mandir upto Chandani Chowk.

WARD NO. 37 - AGRASEN WARD

North	Starting from Sadar road Kadambani Chowk to Minhajul Khan house to Satayawan Goyal Saw mill to Bundabahara boundary to Ayan Marg to house of Sanual Sipahi to Ayan Marg Prakash Rawani Colony road upto ring road.
East	Starting from Prakash Rawani colony ring road to Bharat mata Chowk upto Kharsia road petrol pump. .
South	Starting from Kharsia road petrol pump to G.S. singh house to Alaknanda Talkies (Agrasen chowk).
West	Starting from Agresan chowk to Mahamaya traders gali to Murarilal Bansal house to daroga kua infront of transformer to Ajay Kitab ghar sadar road upto Kadambani Chowk.

WARD NO. 38 - DR. ZAKIR HUSAIN WARD

North	Starting from Mahamaya chowk to Mahamaya road up to behind nala of Late Safakat Ali house.
East	Starting from behind nala of Late Safakat Ali house to front of Samid babu gali to Rasulpur Khadhim house behind to Ice factory gali to Ayan Marg boundary of Bandabhara road.
South	Starting from Ayan Marg boundary of Bandabhara road to ayan marg road to Barej talab to Sheetal chaya south to in front of Goyal Saw mill to National tyre gali up to Kadambi chowk Sadar road.
West	Starting from Sadar road Kadambi chowk up to Mahamaya chowk.

WARD NO. 39 - RAFI AHMED KIDWAI WARD

North	Starting from Samalaya Mandir Mahamaya road corner up to Mahamaya road tower gali.
East	Starting from Mahamaya road Twer gali to front of Kittu bhai road to till corner of Shahjahan Khan house.
South	Starting from Shahjahan Khan house to Iliyas Ansari house up to sanual sipahi house near Kamulddin open land .
West	Starting from Kamulddin open land to in front of Khadim house road to Late Safhakat Ali residence till corner of Samlaya mandir.

WARD NO. 40 - NAWAGARH WARD

North	Starting from Warsi sahib house to ring road sadbhawana Chowk to infront of Mahamaya mandir upto Oriental Public School.
East	Starting from Oriental Public School to Border of Khairbar to city border to below Oxygen Park to in front of Late Jafar khan house chowk up to Nahar Marg.
South	Starting from Nahar marg to canal slab to Farukha Kabadi house up to Harsagar Talab ring road beside Raj kirana.
West	Starting from beside of Raj kirana to before house Shahjahan Khan to west north corner of Harsagar Talab upto house of Warsi Sahab house on ring road.

WARD NO. 41 - SHAHEED ABDUL HAMID WARD

North	Starting from Raj kirana on ring road to Farukha Kabadi house to Canal culvert to ex Sarpanch house to in front of Late Jafar Khan house chowk to Srigarh village border up to Panchayat Bhawan.
East	Starting from Panchayat Bhawan Border of Srigarh village up to Kharsia road.
South	Starting from border of Srigarh Kharsia road upto Bharatmata chowk.
West	Starting from Bharat mata Chowk to Prakash Rawani colony along with Ayan marg to Hakim Chacha house to Ishak house to Muslim driver house to Riyazul house upto Raj Kiran on ring road.

WARD NO. 42 - DR. RAJENDRA PRASAD WARD

North	Starting from Ring road Gaurav Path to before Jail upto west corner of Jail Talab.
East	Starting from West corner of Jail Talab near to house of Ballu Sharma to C.C. road to way of Sudama house upto ring road.
South	Starting from Ring road to Bunty Sharma house upto corner Ring road.
West	Starting from Bunty Sharma house on ring road upto ring road Gaurav Path.

WARD NO. 43 - KABIR WARD

North	Starting from Near Central Jail to in front of G. S. Singh house road.
East	Starting from in front of G.S. Singh house till in front of Prakash Sahu house gali.
South	Starting from in front of Prakash Sahu gali to SLRM Center upto Ring road.
West	Starting Sudama Kurre gali on Ring Road upto Jail Bandh Central Jail.

WARD NO. 44 – INDHIRA GANDHI WARD

North	Starting from Gangapur nala in front of Gaurav Path along with open land to SLRM Center to in front of Prakash Sahu house gali to Hanuman Mandir to Shayama Prasad Mukharjee Chowk upto Gahira Guru Ashram.
East	Starting from Gahira Guru Ashram to in front of Acchelal Sahu house upto Bilaspur Road.
South	Starting from Bilaspur Road to Khanighar upto Gangapur Nala.
West	Starting Gangapur Nala upto Gaurav path Ring road Nala.

WARD NO. 45 - DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD

North	From Agriculture land south canal of Rani Talab starting from G.S. Singh house to along with south corner of Rani Talab, Agriculture land to slab culvert on Kharsiya chowk up to City border.
East	Starting from city border to in front of Gahira Guru Ashram up to Ring road.
South	Starting from Gahira Guru Ashram on ring road upto Bilaspur Chowk.
West	Starting from Bilaspur Chowk to in front of Distt. Hospital to G. S. Singh house till Rani Talab.

WARD NO. 46 - SAINT GAHIRA GURU WARD

North	Starting from Gangapur Nala to Khanji Ghar to Bilaspur road Mahendra Sahu shop to Akhsya lal sahu house upto Bhatupara school canal.
East	Starting from Bhatupara school canal up to border of village Kantthi
South	Starting from border of village Kantthi up to Bilaspur road City border.
West	Starting from city border on Bilaspur road to Sanitary Park upto Gangapur Nala.

WARD NO. 47 - GANGAPUR WARD

North	Starting from Housing board colony on Gangapur road upto Ring road.
East	Starting from Ring road to in front of Pratiksha Bus stand Ring road to Muktidham Nallah up to Pandit Ji house.
South	Starting from Muktidham nallah pandit ji house to border of village Harratikra.
West	Starting from border of village Harratikra to nallah to Housing board colony Gangapur.

WARD NO. 48 - BISHUNPUR WARD

North	Starting from infront Mahamaya Flex to open land to Nallah up to stop dam.
East	Starting from Stop Dam up to Housing Board Nala.
South	Starting from Housing Board Nala to behind of Ayurvedic Hospital up to border of Keshvpur village.
West	Starting from border of Keshvpur village along with city border up to behind Mahamaya Flex.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKKA, Deputy Secretary.